

## ओबीसी वर्गीकरण का औचित्य एवं प्रभाव

### संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी की केंद्रीय सूची के वर्गीकरण के लिये आयोग बनाने के फैसले को मंजूरी दी है। यानी इस वर्ग में भी पछिड़ेपन की सीमा आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से यह कोटे के अंदर कोटा होगा। सरकार के राजनैतिक उद्देश्यों से परे हटकर विचार करें तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस लेख में हम ओबीसी यानी अन्य पछिड़ा वर्ग आरक्षण, सरकार के इस प्रयास के नहितार्थों एवं संभावित प्रभावों तथा इसकी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करेंगे।

### ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि

- मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में "सामाजिक या शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्ग की पहचान" के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बी.पी. मंडल द्वारा किया गया था।
- जातगत भेदभाव को दूर करने के लिये आरक्षण एवं कोटा निर्धारण की व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल यह था कि किन समूहों को यह लाभ दिया जाए अर्थात् समूहों के पछिड़ेपन का निर्धारण कैसे हो।
- गौरतलब है कि समूहों के पछिड़ेपन का निर्धारण के लिये मंडल आयोग द्वारा ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पछिड़े वर्ग के लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई।
- मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिये ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये 27% आरक्षण लागू किया जाए।
- वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। हालाँकि कई जगह व्यापक विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इंदरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी।
- वदिति हो कि इंदरा साहनी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पछिड़े वर्गों को पछिड़ा या अति-पछिड़ा के रूप में श्रेणीबद्ध करने में कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। अतः राज्य सरकारें ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं।
- तब से भारतीय राजनीति में आरक्षण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके जिक्र मात्र से सरकारें बन और बगिड़ जाती हैं।

### क्या है ओबीसी में वर्गीकरण का मामला

- भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियाँ ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में हैं।
- दरअसल, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्याधिक कमज़ोर वर्ग के लिये कुछ विशेष नहीं किया गया। यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही समिटकर रह गया है।
- ऐसे में ओबीसी वर्ग के अन्दर ही वर्गीकरण की माँग लगातार की जाती रही है और अब तक नौ राज्यों-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है।
- ओबीसी आरक्षण से संबंधित केंद्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है।
- हालाँकि 'पछिड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्ज़ा देने का फैसला कर चुकी सरकार ने अब ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर उन पछिड़ी जातियों को राहत देने की तैयारी की है, जिन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिला पाता है।

### केंद्रीय ओबीसी सूची वर्गीकरण आयोग का कार्य

- इस आयोग का नाम 'अन्य पछिड़ा वर्ग उप-वर्गीकरण जाँच आयोग' होगा। यह ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जाँच करेगा। साथ ही असमानता दूर करने के तौर-तरीके और प्रक्रिया भी तय करेगा।
- यह ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये वैज्ञानिक और उचित दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्थात्मक मानदंडों के निर्माण का कार्य भी करेगा। यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- दरअसल, पछिड़ा वर्ग आयोग ने तीन वर्गों में वर्गीकरण का सुझाव दिया था- पछिड़ा वर्ग, अधिक पछिड़ा वर्ग और अति-पछिड़ा वर्ग। यह आयोग उन जातियों की संख्या और पछिड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा।

### आगे की राह

- यदिसच में हम हाशए पर टेल दयि गए समूहों के जीवन में आरक्षण के ज़रयि महत्त्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल दो विकल्प हैं-या तो सरकार को सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता में व्यापक रूप से वृद्धि करनी चाहयि या फरि इन लाभों को प्राप्त करने योग्य आबादी का आकार कम करना चाहयि ।
- इन दो विकल्पों में से सबसे व्यवहार्य विकल्प दूसरा है । लेकिन इसके लयि हमें ज़रूरत है जातिसंबंधति मानद आँकड़ों की ।
- जातगित जनगणना के संबंध में हमारे पास आँकड़ों का अभाव है, अब जबकि वर्ष 2021 की जनगणना की तैयारयि चल रही है तो जातगित के आँकड़ों को इकट्ठा करने के लयि अब एक विशेषज्ञ समूह बनाने का समय है । बनिा इन आँकड़ों के यह आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उतना सफल नहीं रहेगा ।

## नषिकर्ष

- इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जातीय और सामाजिक व्यवस्था काफी जटलि है । ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही कुछ ऐसी जातयि हैं जो इसी वर्ग से संबंध रखने वाली अन्य जातयि के उत्पीडन में शामिल हैं । ऐसे में ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ सीमति समूहों तक ही सीमति हो जाना लाज़मी है ।
- ऐसे में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, क्योकि ओबीसी आरक्षण कोटे में एक कोटा बनाकर इस आरक्षण वर्ग में लाभ से वंचति अन्य जातयि को राहत दी जा सकती है ।
- दरअसल, मंडल आयोग की सफिरशिों का उद्देश्य आरक्षण के ज़रयि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करना था, लेकिन पछिले कुछ समय से इस व्यवस्था को इस रूप में देखा जाने लगा है जैसे यह सरकारी नौकरयि हासलि करने का आसान ज़रयि हो ।
- यही कारण है कि वोट बैंक के लालच में कई राज्यों ने ओबीसी वर्ग के अन्दर वर्गीकरण करते हुए 50 प्रतिशत की तय सीमा से आगे जाकर भी आरक्षण की व्यवस्था की, जसि सुप्रीम कोर्ट को खारज़ि करना पड़ा । इस आयोग की सफिरशिें लागू होने के बाद वर्गीकरण की एक केन्द्रीय सूची मलि जाएगी, जसिसे आरक्षण के नाम पर आए दनि होने वाले दंगा-फसादों से मुक्त मलि सकती है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/obc-classification-effects-and-rationale-behind-it>

